

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2018/ आश्विन 23, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 632
No. 199]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2018/ ASVINA 23, 1940	[N.C.T.D. No. 632

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
(सचिवालय शिक्षा शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

सं.फा. 27(8) 2013/सचि.शा./शिक्षा/1245-54.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित उप-प्रधानाचार्य के भर्ती नियमों से संबंधित दिनांक 28 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या फा. 2(6)/70- एस-II/पार्ट के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-प्रधानाचार्य के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को उप-प्रधानाचार्य, राजकीय सैकेंडरी/सीनियर सैकेंडरी स्कूल भर्ती नियमावली, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप-प्रधानाचार्य राजकीय सैकेंडरी/सीनियर सैकेंडरी स्कूल
2.	पदों की संख्या	:	1295* (2018) पुरुष: 677; महिला: 618. *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर — 10, 56100—1,77,500 /— रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) नोट:— आयु सीमा के निर्धारण की अन्तिम तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:— (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि;

		<p>(II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक; तथा</p> <p>(III) स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>अथवा</p> <p>प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव</p> <p>टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: 50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: पदोन्नति ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, 47,600-1,51,100/-रुपये में स्नातकोत्तर अध्यापक (शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर अध्यापकों को छोड़कर)
		<p>टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले</p>

		ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>: 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— सदस्य 3. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) — सदस्य 4. निदेशक (शिक्षा) — सदस्य <p>'क' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) — सदस्य 3. निदेशक (शिक्षा) — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

बिनय भूषण, विशेष सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION
(SECRETARIAT EDUCATION BRANCH)
NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2018

No.27(8)/2013/Sectt.Br./Edn./1245-54.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of notification No.F.2(6)/70-S-II/Part dated the 28th April, 1977 notified by the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, regarding recruitment rules for the post of Vice Principal, the Hon'ble Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Vice Principal in Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement** : (i) These rules may be called the Vice Principal, Government Secondary/Senior Secondary Schools, Recruitment Rules, 2018.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, its classification and level in pay matrix :-** The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications:-** No person,
- (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
- shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by an order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST	NUMBER OF POST	CLASSIFICATION	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VICE PRINCIPAL Government SECONDARY/S ENIOR SECONDARY SCHOOLS.	1295* (2018) MALE : 677; FEMALE : 618. <i>*(SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD)</i>	CENTRAL CIVIL SERVICES GROUP 'A' GAZETTED. NON-MINISTERIAL.	LEVEL-10 RS. 56,100 - 1,77,500/-	SELECTION	- NOT EXCEEDING THIRTY FIVE YEARS. - (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS UPTO FIVE YEARS' IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDER ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). - NOTE: THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE AS ADVERTISED BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION	ESSENTIAL : (I) MASTER'S DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY / INSTITUTE; (II) BACHELOR OF EDUCATION FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY; AND (III) TWO YEARS' EXPERIENCE AS POST GRADUATE TEACHER ; OR THREE YEARS' EXPERIENCE AS TRAINED GRADUATE TEACHER - NOTE 1 : QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, FOR REASONS

						<p>TO BE RECORDED IN WRITING, IN THE CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED.</p> <p>- NOTE 2 : THE QUALIFICATI ON(S) REGARDING EXPERIENCE IS/ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING IN THE CASE OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES OR SCHEDULED TRIBES, IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROM THESE COMMUNITIE S POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL UP THE VACANCIES RESERVED FOR THEM.</p>
--	--	--	--	--	--	--

WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION, IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT : WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION / ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>ONE YEAR.</p> <p>NOTE: MANDATORY INDUCTION TRAINING OF AT LEAST TWO WEEKS FROM UNION TERRITORIES CIVIL SERVICES IN THE FIELD OF DUTIES/RESPONSIBILITIES OF THE POST, AS PART OF SUCCESSFUL COMPLETION OF PROBATION.</p>	<p>50% BY PROMOTION., 50% BY DIRECT RECRUITMENT.</p>	<p>PROMOTION: POST GRADUATE TEACHERS [EXCLUDING POST GRADUATE TEACHERS (PHYSICAL EDUCATION)] IN LEVEL-8 RS.47,600-1,51,100/- IN PAY MATRIX WITH TWO YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE. NOTE: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING /ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE, BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND</p>	<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE CONSISTING OF:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAIRMAN / MEMBER, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION. - CHAIRMAN 2. CHIEF SECRETARY, GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI – MEMBER 3. PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (EDUCATION) - MEMBER 4. DIRECTOR (EDUCATION) – MEMBER. <p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE CONSISTING OF :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHIEF SECRETARY, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI – CHAIRMAN 2. PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (EDUCATION) - MEMBER 3. DIRECTOR (EDUCATION) – MEMBER. 	<p>CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS NECESSARY FOR APPOINTMENT TO THE POST ON EACH OCCASION.</p>

			HAVE SUCCESSFULL Y COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE.		
--	--	--	--	--	--

by Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi.

BINAY BHUSHAN, Special Secy. (Education)